

## खंड - 1

### प्रश्नपत्र

1. पोर्टफोलियो के \_\_\_\_\_ के रूप में भी थिटा का उल्लेख किया जाता है। [1 अंक]  
(ए) टाइम डिके  
(बी) रिस्क डिले  
(सी) रिस्क डिके  
(डी) टाइम डिले
2. फ्यूचर्स कांट्रैक्ट्स के संबंध में निम्नलिखित में से सभी सत्य हैं, सिवाय कि : [2 अंक]  
(ए) RBI द्वारा उनका नियमन किया जाता है।  
(बी) उनके लिए पर्फार्मेंस बॉण्ड के भुगतान की जरूरत होती है।  
(सी) वे वैधानिक रूप से प्रवर्तनीय प्रॉमिस होते हैं।  
(डी) वे मार्केट टू मार्केट होते हैं।
3. क्लियरिंग मेम्बर्स (CM) और ट्रेडिंग मेम्बर्स (TM) के लिए उनके सभी ट्रेडिंग मेम्बर्स/घटकों से अपफ्रंट इनिशियल मार्जिन वसूल करने की जरूरत होती है। [2 अंक]  
(ए) सत्य  
(बी) असत्य
4. इंडेक्स फ्यूचर्स कांट्रैक्ट्स में \_\_\_\_\_ पर सभी ओपन पोजिशनों का दैनिक निपटान होता है। [3 अंक]  
(ए) मार्क-टू-मार्केट सेटलमेंट प्राइस  
(बी) नेट सेटलमेंट प्राइस  
(सी) ओपनिंग प्राइस  
(डी) क्लोजिंग प्राइस

5. निफ्टी इंडेक्स पर 3040 स्ट्राइक प्राइस का एक अमेरिकन स्टाइल कॉल ऑप्शन 30 जून, 2008 को समाप्त हो रहा है जिसका '30 JUN 2008 3040 CA' के रूप में उल्लेख किया जाता है। [2 अंक]  
(ए) असत्य  
(बी) सत्य
6. आमतौर पर \_\_\_\_\_ कांट्रैक्ट में ओपन इंटेरेस्ट अधिकतम होता है। [2 अंक]  
(ए) मोर लिक्विड कांट्रैक्ट्स  
(बी) फार मंथ  
(सी) मिडल मंथ  
(डी) नियर मंथ
7. एक इक्विटी इंडेक्स में \_\_\_\_\_ का समावेश होता है। [1 अंक]  
(ए) स्टॉक्स बास्केट  
(बी) बॉन्ड्स एवं स्टॉक्स बास्केट  
(सी) ट्रेडिंगपात्र डिबेंचर्स बास्केट  
(डी) उपरोक्त में से कोई नहीं
8. क्रमशः ट्रेडिंग मेम्बर, क्लाइंट, मार्केट एवं FII स्तरों पर \_\_\_\_\_ द्वारा पोजिशन लिमिट का उल्लेख किया जाता है। [2 अंक]  
(ए) सब ब्रोकर्स  
(बी) ब्रोकर्स  
(सी) SEBI  
(डी) RBI
9. NSEIL के F&O सेगमेंट में एक आर्डर जो मूल्य की सीमा पार होने पर प्रभावी होता है, वह \_\_\_\_\_ होता है। [1 अंक]  
(ए) स्टॉप लॉस आर्डर  
(बी) मार्केट आर्डर  
(सी) फिल या किल आर्डर  
(डी) उपरोक्त में से कोई नहीं

10. निम्नलिखित में से कौनसा डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन नहीं है? [1 अंक]
- (ए) एक निवेशक जो इंडेक्स के बढ़ने की उम्मीद में इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदता है।  
(बी) एक कॉपर फेब्रिकेटर जो अपनी कॉपर की वार्षिक जरूरत खरीदने के लिए फ्यूचर्स में प्रवेश करता है।  
(सी) एक किसान जो भावी तारीख पर अपनी फसल बेचता है।  
(डी) एक निर्यातक जो हाजिर बाजार में डालर बेचता है।
11. एक निवेशक ABC लि. में मंदी आने की धारणा से 10 एक महीने का ABC लि. फ्यूचर्स कांट्रैक्ट्स 5,00,000 रु. में बेचता है। महीने के अंतिम गुरुवार को ABC लि. 510 रु. पर बंद होता है। उसे \_\_\_\_\_ रु. का होता है। (मान लें एक लॉट = 100 है) [2 अंक]
- (ए) 10,000 रु. का मुनाफा  
(बी) 10,000 रु. का नुकसान  
(सी) 5,100 रु. का नुकसान  
(डी) 5,100 रु. का मुनाफा
12. ब्याज दरें आमतौर पर कोट होती हैं : [2 अंक]
- (ए) प्रति वर्ष आधार पर।  
(बी) प्रति दिन आधार पर।  
(सी) प्रति सप्ताह आधार पर।  
(डी) प्रति महीना आधार पर।
13. SPAN द्वारा अंडरलाइंग मार्केट प्राइस और चंचलता परिवर्तनों की 16 विभिन्न परिस्थितियों का अवलोकन करने के बाद इन 16 अवलोकनों में से \_\_\_\_\_ नुकसान का चयन किया जाता है। [2 अंक]
- (ए) सबसे बड़ा  
(बी) 8वां सबसे छोटा  
(सी) सबसे छोटा  
(डी) औसत

14. श्री राम 1,200 रु. स्ट्राइक के साथ एक स्टॉक पर 100 कॉल्स खरीदते हैं। वह 50 रु. प्रति कॉल प्रीमियम अदा करते हैं। एक महीने बाद बाजार में 1,300 रु. में स्टॉक ट्रेड होता है। कॉल का उपयोग करने पर उन्हें प्राप्त होगा \_\_\_\_\_। [2 अंक]  
(ए) 10,000 रु.  
(बी) 1,200 रु.  
(सी) 6,000 रु.  
(डी) 1,150 रु.
15. F&O सेगमेंट में फारेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (FII) के लिए नो पोजिशन लिमिट निर्धारित होती है। [1 अंक]  
(ए) सत्य  
(बी) असत्य
16. ब्लैक-शोल्स ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल में जब S काफी विशाल बन जाता है तब कॉल ऑप्शन का उपयोग करना प्रायः अनिवार्य हो जाता है। [2 अंक]  
(ए) असत्य  
(बी) सत्य
17. मान लें कि निफ्टी ऑप्शंस 1850, 1860, 1870, 1880, 1890, 1900, 1910 स्टॉक प्राइसों के साथ 1, 2 और 3 महीना एक्सपायरी के लिए ट्रेड होता है। कितने विभिन्न ऑप्शंस कांट्रैक्ट सौदापात्र होंगे? [2 अंक]  
(ए) 27  
(बी) 42  
(सी) 18  
(डी) 24
18. वित्तवर्ष 2005 - 06 से पूर्व आयकर कानून के तहत कर दायित्व का निर्धारण करने के उद्देश्य से डेरिवेटिव्स में सौदे को सट्टेबाजी का सौदा माना जाता था। [1 अंक]  
(ए) सत्य  
(बी) असत्य

19. NSCCL द्वारा कस्टोडियल पार्टिसिपेंट को \_\_\_\_\_ आबंटित किया जाता है।  
[3 अंक]
- (ए) यूनिक CP कोड  
(बी) आर्डर आइडेंटिफायर  
(सी) PIN नंबर  
(डी) ट्रेड आइडेंटिफायर
20. एन्यूअल कम्पाउंडिंग के अनुसार, ब्याज दर 15% वार्षिक है। कंडिन्यूअस कम्पाउंडिंग के अनुसार समान दर क्या होगी?  
[2 अंक]
- (ए) 14%  
(बी) 14.50%  
(सी) 13.98%  
(डी) 14.75%
21. क्रेता/धारक को एक्सरसाइज/एक्सपायरी तारीख पर अंतिम निपटान मूल्य और स्ट्राइक मूल्य के बीच अनुकूल फर्क की रकम प्राप्त हुई है जिसकी \_\_\_\_\_ के रूप में स्वीकृति होगी।  
[2 अंक]
- (ए) आय  
(बी) खर्च  
(सी) कहा नहीं जा सकता  
(डी) उपरोक्त में से कोई नहीं
22. NSE का F&O सेगमेंट निम्नलिखित डेरिवेटिव साधनों के लिए ट्रेडिंग सुविधाएं प्रदान करता है, सिवाय कि  
[2 अंक]
- (ए) वैयक्तिक वारेंट ऑप्शंस  
(बी) इंडेक्स आधारित फ्यूचर्स  
(सी) इंडेक्स आधारित ऑप्शंस  
(डी) वैयक्तिक स्टॉक ऑप्शंस

23. एक कांट्रैक्ट जो अंडरलाइंग सिक्युरिटीज के मूल्य या इंडेक्स के मूल्य से अपनी कीमत प्राप्त करता है, को शामिल करने के लिए डेरिवेटिव  $SC(R)A$  के तहत परिभाषित होता है। [1 अंक]
- (ए) सत्य  
(बी) असत्य
24. NSE के ट्रेडिंग सिस्टम के मार्फत सौदों की जोखिम प्रबंधन गतिविधियां और पुष्टि \_\_\_\_\_ द्वारा की जाती है। [2 अंक]
- (ए) यूजर्स  
(बी) ट्रेडिंग मेम्बर्स  
(सी) क्लियरिंग मेम्बर्स  
(डी) पार्टिसिपेंट्स
25. एक डीलर 15 जनवरी को 250,000 रु. में एक जनवरी निफ्टी फ्यूचर्स कांट्रैक्ट बेचता है। प्रत्येक निफ्टी फ्यूचर्स कांट्रैक्ट 50 निफ्टी की डिलीवरी के लिए है। 25 जनवरी को इंडेक्स 5100 पर बंद होता है। उसे कितना मुनाफा/नुकसान हुआ? [2 अंक]
- (ए) 9000 रु. का मुनाफा  
(बी) 8000 रु. का नुकसान  
(सी) 9500 रु. का नुकसान  
(डी) 5000 रु. का नुकसान
26. मनोज ABC लि. के 500 शेयर खरीदता है। बजट के समय के आसपास भाव के उतार-चढ़ाव से वह असहज हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन उसे इच्छित हेज प्रदान करेगा (यह मानते हुए कि एक फ्यूचर्स कांट्रैक्ट = 100 शेयर है)? [1 अंक]
- (ए) 5 ABC लि. फ्यूचर्स कांट्रैक्ट्स खरीदे  
(बी) 5 ABC लि. फ्यूचर्स कांट्रैक्ट बेचे  
(सी) 10 ABC लि. फ्यूचर्स कांट्रैक्ट बेचे  
(डी) 10 ABC लि. फ्यूचर्स कांट्रैक्ट खरीदे

27. एक निवेश को टाटा मोटर्स में मंदी आने की उम्मीद है और वह 6,06,000 रु. में 10 एक महीने का टाटा मोटर्स फ्यूचर्स कांट्रैक्ट बेचता है। महीने के अंतिम गुरुवार को टाटा मोटर्स 600 रु. में बंद होता है। उसे \_\_\_\_\_ रु. होता है। (यह मानते हुए कि एक लॉट = 100 है) [2 अंक]
- (ए) 6,000 रु. का मुनाफा  
(बी) 6,000 रु. का नुकसान  
(सी) 8,000 रु. का मुनाफा  
(डी) 8,000 रु. का नुकसान
28. जेट एयरवेज का बीटा 1.3 है। एक व्यक्ति के पास 100,000 रु. की शॉर्ट निफ्टी पोजिशन के साथ 200,000 रु. का लॉंग जेट एयरवेज पोजिशन है। निम्नलिखित में से कौन सत्य है? [2 अंक]
- (ए) वह निफ्टी पर बुलिश और जेट एयरवेज पर बियरिश है।  
(बी) उसके पास निफ्टी के उतार-चढ़ाव के समक्ष आंशिक हेज है।  
(सी) वह निफ्टी के साथ-साथ जेट एयरवेज पर बियरिश है।  
(डी) उसके पास निफ्टी के उतार-चढ़ाव के समक्ष पूर्ण हेज है।
29. मान लें कि एक स्टॉक ऑप्शन कांट्रैक्ट 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115 के स्ट्राइक प्राइस के साथ 1, 2 और 3 महीने एक्सपायरी के लिए ट्रेड होता है। कितने विभिन्न ऑप्शंस कांट्रैक्ट सौदापात्र होंगे? [2 अंक]
- (ए) 18  
(बी) 32  
(सी) 21  
(डी) 42
30. सिर्फ खरीद एवं बिक्री द्वारा बुल स्प्रेड का निर्माण किया जा सकता है। [2 अंक]
- (ए) बास्केट ऑप्शन  
(बी) फ्यूचर्स  
(सी) वारंट  
(डी) ऑप्शंस

31. स्टॉक ब्रोकर का आशय \_\_\_\_\_ का सदस्य होता है [1 अंक]  
(ए) SEBI  
(बी) किसी भी एक्सचेंज  
(सी) एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज  
(डी) किसी भी स्टॉक एक्सचेंज
32. आशिष HLL के बारे में बुलिश है, जो हाजिर बाजार में 210 रु. में ट्रेड हो रहा है। वह 1.05 रु. प्रति कॉल प्रीमियम पर 230 के स्ट्राइक के साथ HLL पर 10 तीन महीना का कॉल ऑप्शन कांट्रैक्ट्स खरीदता है। तीन महीने बाद HLL 250 रु. डार बंद हुआ। मान लें कि 1 कांट्रैक्ट = 100 शेयर, पोजिशन पर उसका मुनाफा \_\_\_\_\_ है। [1 अंक]  
(ए) 18,950 रु.  
(बी) 19,500 रु.  
(सी) 10,000 रु.  
(डी) 20,000 रु.
33. एक जनवरी महीने का निफ्टी फ्यूचर्स कांट्रैक्ट जनवरी के अंतिम \_\_\_\_\_ को समाप्त होगा। [2 अंक]  
(ए) सोमवार  
(बी) गुरुवार  
(सी) मंगलवार  
(डी) बुधवार
34. निम्नलिखित में कौनसा अति तरल स्टॉक्स होता है? [2 अंक]  
(ए) सभी इन्फोटेक स्टॉक्स।  
(बी) NSE पर लिस्टेड स्टॉक्स/ट्रेड के लिए मान्य।  
(सी) निफ्टी इंडेक्स के स्टॉक्स।  
(डी) CNX निफ्टी जुनियर इंडेक्स के स्टॉक्स।

35. ऑप्शन के क्रेता/धारक के बुक्स में अदा किया गया प्रीमियम स्थिति के अनुसार 'इक्विटी इंडेक्स ऑप्शन प्रीमियम एकाउंट' । 'इक्विटी स्टॉक ऑप्शन प्रीमियम एकाउंट' में \_\_\_\_\_ होगा। [2 अंक]
- (ए) डेबिट  
(बी) क्रेडिट  
(सी) डिपेंड  
(डी) कोई नहीं
36. ग्रीक अक्षर एक ऑप्शन पोजिशन में \_\_\_\_\_ के आयाम की माप करता है। [1 अंक]
- (ए) जोखिम  
(बी) प्रीमियम  
(सी) संबंध  
(डी) कोई नहीं
37. एक ऑप्शन जो धारक को भविष्य में किसी समय विशेष मूल्य पर एक स्टॉक बेचने का अधिकार देता है, उसे कहा जाता है। [1 अंक]
- (ए) नेकेड ऑप्शन  
(बी) कॉल ऑप्शन  
(सी) आउट-ऑफ-द-मनी ऑप्शन  
(डी) पुट ऑप्शन
38. ट्रेडिंग मेम्बर शांतिलालने मार्च 2000 कांट्रैक्ट में प्रोपराइटरी खरीदी की है। उन्होंने 1200 रु. की दर से 1500 यूनिट खरीदी और 1220 रु. की दर से 1400 यूनिट बेची। दिन की समाप्ति पर निपटान मूल्य ? [1 अंक]
- (ए) 300 यूनिट्स  
(बी) 200 यूनिट्स  
(सी) 100 यूनिट्स  
(डी) 500 यूनिट्स

39. किस वर्ष में शिकागो मर्चटाइल, एक्सचेंज पर नए फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम पर आधारित फारेन करंसी फ्यूचर्स पेश हुआ था। [1 अंक]  
(ए) 1970  
(बी) 1975  
(सी) 1972  
(डी) 1974
40. एक फ्यूचर्स कांट्रैक्ट में भाव कोटेशन की यूनिटें और प्रीमियम भाव परिवर्तन मानकीकृत आइटम नहीं होते। [1 अंक]  
(ए) सत्य  
(बी) असत्य
41. डेरिवेटिव्स के पेश होने के साथ अंडरलाइंग कैश मार्केट में \_\_\_\_\_ दिखायी देता है। [1 अंक]  
(ए) कम मात्रा  
(बी) कभी-कभार अधिक, कभी-कभार कम  
(सी) अधिक मात्रा  
(डी) पहले की तरह मात्रा समान
42. क्लियरिंग मेम्बर्स को ट्रेडिंग मेम्बर्स से प्रारंभिक मार्जिन वसूल करने की जरूरत नहीं होती। [1 अंक]  
(ए) असत्य  
(बी) सत्य
43. फ्यूचर्स/ऑप्शंस बाजार के लिए प्रारंभिक मार्जिन की गणना करने के लिए किस जोखिम अनुमान पद्धति का उपयोग किया जाता है? [2 अंक]  
(ए) वैल्यू एट रिस्क  
(बी) संभाव्यता का कानून  
(सी) स्टैंडर्ड डेविएशन  
(डी) उपरोक्त में से कोई नहीं

44. हाजिर बाजार में गिरावट के साथ एक कॉल ऑप्शन का मूल्य \_\_\_\_\_ है। [2 अंक]
- (ए) बढ़ता है  
(बी) परिवर्तित नहीं होता  
(सी) घटता है  
(डी) बढ़ता या घटता है
45. कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह संयुक्त रूप से कार्य करते हैं जो मिलकर इंडेक्स डेरिवेटिव्स में \_\_\_\_\_% या अधिक का ओपन इंटररेस्ट लेते हैं, उन्हें क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को उसे बताने की जरूरत होती है। [1 अंक]
- (ए) 35  
(बी) 15  
(सी) 5  
(डी) 1
46. NSE में सभी एक्सपायरी चक्र रखने वाले निफ्टी, CNX IT, BANK निफ्टी, निफ्टी मिडकैप 50 और मिनी निफ्टी फ्यूचर्स कांट्रैक्ट्स में सौदा होता है, सिवाय कि [2 अंक]
- (ए) दो-महीने का एक्सपायरी चक्र  
(बी) चार महीने का एक्सपायरी चक्र  
(सी) तीन महीने का एक्सपायरी चक्र  
(डी) एक महीने का एक्सपायरी चक्र
47. एक निवेशक रिलायंस के 1000 शेयर खरीदता है। बजट के समय के आसपास वह भाव के उतार-चढ़ाव से असहज हो जाता है। रिलायंस का एक कांट्रैक्ट 100 शेयरों के बराबर है, निम्नलिखित में से कौन उसे इच्छित हेज प्रदान करेगा? [2 अंक]
- (ए) 5 रिलायंस फ्यूचर्स कांट्रैक्ट्स खरीदे  
(बी) 10 रिलायंस फ्यूचर्स कांट्रैक्ट्स बेचे  
(सी) 5 रिलायंस फ्यूचर्स कांट्रैक्ट्स बेचे  
(डी) 10 रिलायंस फ्यूचर्स कांट्रैक्ट्स खरीदे

48. हाजिर भाव = 100 रु.। कॉल ऑप्शन स्ट्राइक मूल्य = 98 रु.। प्रीमियम = 4 रु.। एक निवेशक ऑप्शन कांट्रैक्ट खरीदता है। ऑप्शन की एक्सपायरी पर हाजिर भाव 108 रु. होता है। ऑप्शन के खरीददार का शुद्ध लाभ \_\_\_ है। [1 अंक]
- (ए) 6 रु.  
(बी) 5 रु.  
(सी) 2 रु.  
(डी) 4 रु.
49. NEAT F&O सिस्टम में यूजरों के बीच पदानुक्रम \_\_\_\_\_ होता है। [2 अंक]
- (ए) ब्रांच मैनेजर, डीलर, कार्पोरेट मैनेजर  
(बी) कार्पोरेट मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, डीलर  
(सी) डीलर, कार्पोरेट मैनेजर, ब्रांच मैनेजर  
(डी) कार्पोरेट मैनेजर, डीलर, ब्रांच मैनेजर
50. प्रोप्राइटरी ट्रेड के लिए ओपन पोजिशन \_\_\_\_\_ पर होगी। [3 अंक]
- (ए) शुद्ध आधार  
(बी) कुल आधार
51. डेरिवेटिव्स क्लियरिंग कार्पोरेशन/हाऊस के क्लियरिंग मेंबरों का न्यूनतम नेटवर्थ \_\_\_\_\_ होगा। [2 अंक]
- (ए) 300 लाख रु.  
(बी) 250 लाख रु.  
(सी) 500 लाख रु.  
(डी) उपरोक्त में से कोई नहीं
52. ब्लैक -शोल्स प्राइसिंग मॉडल \_\_\_\_\_ में विकसित हुआ था। [2 अंक]
- (ए) 1923  
(बी) 1973  
(सी) 1887  
(डी) 1987

53. इंडेक्स फ्यूचर्स कांट्रैक्ट्स के मामले में दैनिक निपटान मूल्य \_\_\_\_\_ है। [3 अंक]  
 (ए) फ्यूचर्स कांट्रैक्ट का बंद भाव  
 (बी) फ्यूचर्स कांट्रैक्ट का खुलता भाव  
 (सी) बंद स्पॉट इंडेक्स मूल्य  
 (डी) ओपनिंग स्पॉट इंडेक्स मूल्य
54. प्रीमियम मार्जिन \_\_\_\_\_ स्तर पर लगती है। [1 अंक]  
 (ए) क्लायंट  
 (बी) क्लियरिंग मेम्बर  
 (सी) ब्रोकर  
 (डी) ट्रेडिंग मेम्बर
55. ब्लैक -शोल्स ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल में S के काफी बड़ा बन जाने पर दौनों  $N(d1)$  और  $N(d2)$  दोनों 1.0 के निकट होते हैं। [2 अंक]  
 (ए) असत्य  
 (बी) सत्य
56. NSE के डेरिवेटिव सेगमेंट में ऑपरेट करने के लिए डीलर/ब्रोकर और बिक्री कमियों के लिए \_\_\_\_\_ परीक्षा पास करने की जरूरत होती है। [1 अंक]  
 (ए) सर्टिफाइड फाइनेंसियल एनलिस्ट  
 (बी) MBA (फाइनेंस)  
 (सी) NCFM  
 (डी) चार्टर्ड एकाउंटेंसी  
 (e) प्रयास नहीं किया गया
57. NEAT F&O ट्रेडिंग सिस्टम \_\_\_\_\_ । [1 अंक]  
 (ए) किसी को भी स्प्रेड ट्रेड प्रवेश करने की अनुमति होती है  
 (बी) स्प्रेड ट्रेड की अनुमति नहीं होती  
 (सी) एक बार में सिर्फ एक सिंगल आर्डर प्लेसमेंट की अनुमति होती है  
 (डी) उपरोक्त में से कोई नहीं

58. ऑप्शंस कांट्रैक्ट्स के संबंध में मेम्बर पर लगायी गई मार्जिन-प्रारंभिक मार्जिन, प्रीमियम मार्जिन और असाइनमेंट मार्जिन होती है। [1 अंक]  
(ए) सत्य  
(बी) असत्य
59. अमेरिकन ऑप्शन निरंतर रूप से अपने यूरोपीयन समकक्ष से उत्पन्न होते हैं। [1 अंक]  
(ए) असत्य  
(बी) सत्य
60. निम्नलिखित में से कौनसा एक शेयर के फारवर्ड प्राइस से सबसे निकट है। यदि कैश प्राइस = 750 रु., फ्यूचर्स कांट्रैक्ट की परिपक्वता = तारीख से एक वर्ष, बाजार ब्याज दर = 12% और अपेक्षित लाभांश 6% है? [2 अंक]  
(ए) 795 रु.  
(बी) 705 रु.  
(सी) 845 रु.  
(डी) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न क्र.	उत्तर	प्रश्न क्र.	उत्तर
1	(ए)	31	(सी)
2	(ए)	32	(ए)
3	(बी)	33	(बी)
4	(ए)	34	(सी)
5	(बी)	35	(ए)
6	(डी)	36	(ए)
7	(ए)	37	(डी)
8	(सी)	38	(सी)
9	(ए)	39	(सी)
10	(डी)	40	(बी)
11	(बी)	41	(सी)
12	(ए)	42	(ए)
13	(ए)	43	(ए)
14	(ए)	44	(सी)
15	(बी)	45	(बी)
16	(बी)	46	(बी)
17	(बी)	47	(बी)
18	(ए)	48	(ए)
19	(ए)	49	(बी)
20	(सी)	50	(ए)
21	(ए)	51	(ए)
22	(ए)	52	(बी)
23	(ए)	53	(ए)
24	(सी)	54	(ए)
25	(डी)	55	(बी)
26	(बी)	56	(सी)
27	(ए)	57	(ए)
28	(बी)	58	(ए)
29	(डी)	59	(बी)
30	(डी)	60	(ए)